

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 जनवरी 2018—पौष 12, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2018

क्र. बी-8-12-2017-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट II दिनांक 23 फरवरी 2016 एवं 23 फरवरी 2017 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी 2017-18 मौसम अंतर्गत अधिसूचित फसलों के ऋणमान की अधिसूचना राजपत्र क्र. 672, दिनांक 12-12-2017 को जारी की गई है. जारी अधिसूचना में जिला सिवनी की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है. मौसम रबी वर्ष 2017-18 के लिये संलग्न सूची अनुसार जिला सिवनी के समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये अल्पकालीन फसल ऋणमान के बराबर प्रति हेक्टेयर बीमित राशि घोषित की जाती है:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

स्केल ऑफ फायनेंस संशोधित (ऋणमान) रबी वर्ष 2017-18 (राशि रु. में)

क्र.	जिला	गेंहू सिंचित	गेंहू असिंचित	चना सिंचित	चना असिंचित	राई सरसों	अलसी	मसूर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सिवनी	24850	16940	22400	-	15400	12600	16450